

170 - Policy

08/10/2020

975/ACTT/PUBLICITY
07-10-2020

C-998058/CGST

07/10/2020

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No. F.3(40)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/106

Dated: 30/9/20

Notification No. 33/2020- State Tax

No. F.3(40)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of the National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No. 04/2018- State Tax, dated the 23rd February, 2018, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (86)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/92, dated the 23rd February, 2018 namely:-

In the said notification, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the months of March, 2020, April, 2020 and May, 2020, and for the quarter ending 31st March, 2020, for the registered persons who fail to furnish the details of outward supplies for the said periods in **FORM GSTR-1** by the due date, but furnishes the said details in **FORM GSTR-1**, on or before the 30th day of June, 2020."

2. This notification shall come into force with effect from 3rd April, 2020.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

Muk
(Mahoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

Dated: 30/9/20

Pr. Secretary

AC (P)

Jant
6/10/20

CS-20
W
9/10/20

789/21
13/10/2020

No.F3(40)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/106

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

Ms. Poonam | Incharge, IT cell

09
12/10/2020

Replanned by website maintain

SP (manita)

Team
AW
17/10

13-10-20
SAT (PKS)

3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Gated File.
11. Website.


(Manoj Kumar)

Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal notification No. 04/2018- State Tax, dated the 23rd February, 2018, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (86)/Fin (Rev-1)/2017-18/DS-VI/92, dated the 23rd February, 2018 and was last amended by notification No. 04/2020- State Tax, dated the 1st September, 2020, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (38)/Fin (Rev-1)/2020-21/DS- IV /74, dated the 1st September, 2020.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनाधी)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.का.3(40)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/106

दिनांक: 30/9/20

अधिसूचना संख्या 33/2020-राज्य कर


सं.का.3(40)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/ : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली मातृ और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 12B द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में सं.का. 3(40)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/92, तारीख 23 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्यांक 04/2018- राज्य कर, तारीख 23 फरवरी, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के परधारा, निम्नलिखित परंतुक अंतर्भावित किया जाएगा, अर्थात् :-

परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संबंधित विलंब पीछे की रकम मार्च, अप्रैल और मई, 2020 के महीनों और 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अभिरक्षक हो जाएगी, जो उक्त मास/तिमाही के लिए देय तारीख तक प्रत्येक जीएसटीआर-1 में जाबक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 30 जून, 2020 या उससे पहले उक्त ब्यौरे प्रत्येक जीएसटीआर-1 में दे दिए हैं ।

2. यह अधिसूचना 3 अप्रैल, 2020 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(मनोज कुमार)
उप सचिव- IV (वित्त)


सं.का.3(40)/वित्त (राजस्व-1)/2020-21/डी.एस.- IV / 106

दिनांक: 30/9/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संप्रसारित:

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।

2. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र के भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनाथ।
3. सचिव (दिरा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
4. अप्रुक्त राज्य कर, दिल्ली, व्यापार नवन. आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्यधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. सार्व.साइल।
11. वेब साईट।


 (मनीष कुमार)
 उप सचिव-IV (दिरा)

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक 4/2018-राज्य कर, तारीख 23 फरवरी, 2018, दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV, में संख्या 3(86)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/92, तारीख 23 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अतिरिक्त अधिसूचना सं. 4/2020-राज्य कर, तारीख 1 सितम्बर, 2020, जो दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV, में संख्या 3(38)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/74, तारीख 1 सितम्बर, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।